



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
RAJASTHAN, JAIPUR
ORDER**

Jaipur September 04, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8660 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Bandikui has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Bandikui. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

नगर पालिका बांदीकुई (दौसा)
प्रोफार्मा "क"

क्र. सं.	प्रस्तावित वार्ड सं.	परिक्षेत्र
1	1	शिव कॉलोनी , रामचन्द्र मीणा की ढाणी , मोतीनगर में अशोक शर्मा के मकान से सुरेन्द्र एडवोकेट को शामिल करते हुये रामकिशन मीना के मकान से दयाराम के मकान से होते हुये जगपाल ठेकेदार के मकान तक सम्पूर्ण मोतीनगर
2	2	आशापुरा - रमेश पटेल के मकान से मदन लाल माल के मकान को शामिल करते हुये लक्ष्मण थानेदार के मकान होते हुये रामजीलाल बैरवा के मकान तक मुख्य गांव आशापुरा सम्पूर्ण, गुर्जरो की ढाणी - छावडियों की ढाणी को शामिल करते हुये भोला सिंह पीलवाल के मकान से होते हुये चांदवारी तक, जोधपुरिया सम्पूर्ण, जोधपुरिया की ढाणी सम्पूर्ण को लेते हुये गुढा रोड चुन्नी लाल धोबी के मकान से रमेश वर्मा पीटीआई के मकान से होते हुये सिंचाई विभाग से अम्बेडकर छात्रावास, उपतहसील को शामिल

		करते हुये मानसिंह पटेल के मकान तक
3	3	1 आशापुरा न्यू कॉलोनी, 2 ग्रीन पार्क न्यू कॉलोनी, 3 ग्रीन पार्क कॉलोनी गुढा रोड का उत्तरी भाग, आशापुरा तिराया गुढा रोड अनिल शर्मा के मकान से पूरण चन्देला के मकान से होते हुये श्मशान भूमी को शामिल करते हेयु पीडी कसाना के मकान से होते हुये भारत विद्या मंदिर तक
4	4	गुढा रोड: रत्तीराम महाजन के मकान से धर्मसिंह पोसवाल के मकान तक बरसाना कॉलोनी को शामिल करते हुये बाढ बगीची सम्पूर्ण, सम्पूर्ण कोलीयान ढाणी, नन्द गांव एक्टेशन, महाराज सिंह आर्य के मकान से ब्रह्म कुमारी के आश्रम के पीछे वाले भाग से होते हुये रामनगर सीमा तक
5	5	1 राम नगर कॉलोनी: सुरेश धवन के मकान से प्रभातीलाल की दुकान से होते हुये संतोष ड्राइवर के मकान से होते हुये मोतीलाल के मकान से होते हुये धारासिंह के मकान का शामिल करते हुये सम्पूर्ण रामनगर कॉलोनी , 2 राम नगर खानपुरिया का बास, 3 ढाणी छावडी
6	6	1 नन्द गांव कॉलोनी, 2 ग्रीन पार्क कॉलोनी गुढा रोड से दक्षिणी भाग सन्त फ्रांसिस स्कूल से पूरण वेद के मकान को शामिल करते हुये नन्द गांव सीमा तक
7	7	रेल्वे कॉलोनी सम्पूर्ण, अम्बेडकर कॉलोनी: कमल जी बिजली वाले के मकान से पूरण बैंक मैनेजर के मकान से होते हुये मुन्ना चक्की वाले के मकान तक , 3 वाल्मिकी नगर
8	8	1 अम्बेडकर पार्क के पास , 2 रेल्वे लाईन के पास, 3 स्कूल के सामने , 4 आर्य आदर्श विद्या मन्दिर के पास , 5 कुण्डारा फ्लोर मील के पीछे, 6 मुख्य बाजार , 7 कूटी विद्यालय के पीछे , मनफूल बैरवा की टाल से श्यामलाल के मकान तक, गोगासहाय डीबीएम के मकान से होते हुये प्यारेलाल ड्राइवर के मकान से रामजीलाल जोगी के मकान से गंगाबिशन के मकान तक
9	9	1 कूटी विद्यालय के पीछे, कजोड प्रजापत के मकान से हरकिशन कुण्डारा के मकान तक , तोताराम के मकान से रामगोपाल बैरवा के मकान तक , कन्हैयालाल के मकान से बाबूलाल बैरवा के मकान तक 2 रेल्वे लाईन के पास, 3 कूटी स्कूल के पीछे, 4 मौहल्ला बैरवा, खुमार, 5 मौहल्ला कोलीयान, 6 पंचायत घर के पास सडक के किनारे ,
10	10	सिकन्दरा रोड-भगत सिंह मार्ग से कृषि उपज मण्डी समिति को

		शामिल करते हुए श्यालावास कोठीन सम्पूर्ण होते हुए सिंगल की झोपडी (भगत सिंह कॉलोनी) सम्पूर्ण
11	11	1 सिकन्दरा रोड-रेलवे स्टेशन गेट से रतन फिलिग स्टेशन शामिल करते हुए भगत सिंह मार्ग होते हुए वृन्दावन कॉलोनी को शामिल करते हुए, पानी की टंकी से, किशनलाल महावर के मकान को शामिल करते हुए रेल लाईन के सहारे मस्जिद होते हुए गुरुद्वारा कॉलोनी को शामिल करते हुए रेलवे स्टेशन गेट तक। 2 सिकन्दरा रोड लालचंद कोठिया से डॉ जगनलाल तक, 3 सारस्वत कॉलोनी सम्पूर्ण।
12	12	सिकन्दरा रोड सडक किनारे- एसपी बुन्देल से होम्योपैथिक चिकित्सालय तक, सत्य नगर सम्पूर्ण, टेका की ढाणी सम्पूर्ण को शामिल करते हुए शिवराम आश्रम से मुकेश माल से होते हुए रामधन बोहरा की ढाणी को शामिल करते हुए एसपी बुन्देल तक।
13	13	सिकन्दरा रोड बस स्टेण्ड- रमेश मिश्रा के मकान से महेन्द्र भट्टा वाला तक, डोई व बालचन्द की ढाणी सम्पूर्ण, नलेल्यान का बास सम्पूर्ण, धर्पो की लाव व कब्रिस्तान की कॉलोनी को शामिल करते हुए बस स्टेण्ड पर यादव व पोसवालों को शामिल करते हुए चन्दा गेस्ट हाउसे से बस स्टेण्ड तक, सिकन्दरा रोड रेलवे स्टेशन गेट से कपूर चन्द जैन पेट्रोल पम्प तक।
14	14	जैन पेट्रोल पम्प पर सलुजा के मकान से आगरा फाटक पर शर्मा स्वीट्स तक, पावर हाउस से सिनेमा हाल तक श्याम सुन्दर शाहरा से सीताराम रावत कमल झालानी से दिनेश सेक्रेटरी तक व मदान के सामने की लाईन लेते हुए माता माई मन्दिर से कालु सिंह से विक्रम प्रताप तक, धर्मचन्द सेठी, दिनेश एलआइसी, सत्यप्रकाश शर्मा से अनंत गौड से शिव मन्दिर तक।
15	15	वाटर वर्क्स के पास रामचरण गौतम से नाथु पाचाल से श्याम मन्दिर से मूलचंद गुप्ता बडागाव वालों को शामिल करते हुए नवल कोली से हरप्रसाद धामाणी व पीछे की लाईन, प्रेमचन्द सैन से गौरी आश्रम व उसके सामने की लाईन, डॉ रमेश विजय से बजरंग चक्की वाले के सामने की लाईन मेघेश जैन से गंगा लहरी ताम्बी तक, पोस्ट ऑफिस के पास से कमलेश पटवारी से चन्द्रकांता स्कुल कॉलोनी लेते हुए मोहनलाल से छाजु पटवारी तक।
16	16	मलखान पान वाले से पीडबलूडी तिराहे से फतेहपुरिया से भाण्डेडा रोड पर रामजीलाल मिश्रा से कोली मोहल्ले को शामिल करते हुए सतीश झालानी से सुरेन्द्र मिश्रा से सुनार चॉक को शामिल करते हुए बटवाडा सदन से कमला प्रसाद से बाबुलाल छोकरवाडा से प्रेम

		झालानी से बाबुलाल अग्रवाल से राजेश सेठी शिव मन्दिर तक, सीताराम मन्दिर के पास के मकान तथा वाटर वर्क्स के अन्दर के क्वार्टर्स तक।
17	17	माचीवाल की बगीची से हरीसिंह साइकिल वाले से मोहन लाल सेकेटरी का मोहल्ला, हरीमोहन साइकिल वाले का मोहल्ला लेते हुए योगेश के मकान तक, माचीवाल की बगीची के पीछे की कॉलोनी शामिल करते हुए चन्दर की लाव तक।
18	18	1 जयपुरी की लाव (महाराणा प्रताप कॉलोनी से सिपाही के मकान से प्रेसवाली की मकान से रामेश्वर मिस्त्री के मकान तक पीछे की कॉलोनी (रामजीलाल बीडीओं की लाइन में आमने-सामने की लाइन) नानगराम बैरवा की लाइन व सामने की लाइन में मन्दिर तक सुनगाडी वाले के मकान से बिगोता वाले के मकान तक तथा विजय आईटीआई की कॉलोनी नगर पालिका की सीमा तक। 2 हरिजन बस्ती, सुन्या हरिजन से रतन ठेकेदार से सुरेश हरिजन से सामुदायिक भवन होते हुए जयपुरी की लाव तक सम्पूर्ण हरिजन बस्ती।
19	19	1 भाण्डेडा रोड , 2 हाई स्कूल रोड , 3 कोली मोहल्ला, 4 बैरवा मोहल्ला, 5 हरिजन बस्ती, 6 हाई स्कूल के पीछे , 7 खटीक मंदिर के पास, 8 भारत विद्या मंदिर रोड , 9 मीणा की ढाणी बाई का बास, 10 किल्याण की ढाणी, 11 पूनी दाई का बास बुद्व विहार,
20	20	1 हाई स्कूल के पास-मोना के मकान से छुट्टन बैरवा के मकान तक आमने-सामने, 2 पटेल नगर सम्पूर्ण रामकिशन के मकान से प्राइमरी स्कूल तक, 3 दायी का बास।
21	21	कुम्हारों की बगीची से नाले के पास, जगदीश चाय वाले से हरिजन बस्ती सम्पूर्ण भाण्डेडा रोड होते हुए खटीक मोहल्ला जेल के पीछे से चौबे चक्की जौधा चाय वाले से धोबी मोहल्ला होते हुए मस्जिद से खटीकनी बाई के मकान तक।
22	22	गर्ल्स स्कूल रोड-मण्डी गेट पर रतन चौधरी से ठाकरया मील होते चौथ माता मन्दिर मोहल्ला, सीताराम अग्रवाल तक शामिल करते हुए रमेश पाडला होते हुए पवन सोनी से प्रभुदयाल सैन से बबीता पाषर्द, गिरार्ज शर्मा से राधेश्याम सोनी से मोहन सोनी के होते हुए धप्पो तक मण्डी के पीछे से हजारी चौधरी तक की सीमा में स्थित जाखड व देवी सुनार मोहल्ला।
23	23	1 पण्डा मोहल्ला: गिरार्ज सेठी के मकान से होते हुये भगवान

		सहाय चायवाले के मकान तक, 2 मोदानी मौहल्ला: राधामिश्राणी के मकान से वेदू सेठी के मकान तक , 3 पूर्व विधायक मौहल्ला: अशोक पारीक की गली से पूर्व विधायक मौहल्ला सम्पूर्ण, 4 खण्डेलवाल धर्मशाला के पास: रामनाथ सैनी के मकान से पीछे दीपू जाट के मकान को शामिल करते हुये ओमप्रकाश मिश्रा के मकान तक, विमल जैन के मकान से मनोज गुरू के मकान तक ,5 हरिजन मोहल्ला सम्पूर्ण , 6 माता माई मंदिर के पास: प्रताप ठाकुर के मकान से लोकेश जोगी के मकान तक व कैलाश पारीक व इशाक के मकान को शामिल करते हुये
24	24	एवीएम के पीछे: सुदर्शन के मकान से लेकर लक्ष्मण सिंह डोई के मकान होते हुये बाबूलाल के मकान से होते हुये शम्भूदयाल के मकान से बहादुर सिंह के मकान तक , सैठी मौहल्ला: गोपाल सिंह धीरावत के मकान से अजय सिंह के मकान तक , गर्ल्स स्कूल रोड एमएस चौराहा से हरिसिंह पीलवाल के मकान तक
25	25	बडियाल रोड खादी भण्डार के पास शम्भूदयाल जांगिड के मकान से जगदीश सेठी के मकान होते हुये कस्तूरी देवी के मकान तक , सिंगल मौहल्ला, शिवालय के पास: कौशल कुमार के मकान से मुरलीधर शर्मा के मकान तक
26	26	एवीएम के पीछे बडियाल रोड: मोतीलाल सैनी के मकान से रामचन्द्र शर्मा के मकान से होते हुये रामप्रसाद सैनी के मकान तक, अलियापाडा मौहल्ला को शामिल करते हुये रमेश जोशी के मकान तक, शिवालय के पास: प्यारेलाल सैनी के मकान से भगवान सहाय शर्मा के मकान से होत हुये दिनेश जांगिड के मकान से हेमकान्त के मकान तक , बडियाल रोड: हरविलास के मकान से बाबूलाल सैनी के मकान से आदर्श कॉलोनी को शामिल करते हुये रमेश जांगिड के मकान तक , शिवालय के पास: संतोष शर्मा पानवाले के मकान से रामदास के मकान तक
27	27	देवतवाल कॉलोनी: राकेश ड्राइवर से जगदीश अग्रवाल के मकान को शामिल करते हुये गोर्वधन गुप्ता के मकान को लेते हुये राजेश शर्मा के मकान को शामिल करते हुये अमर सिंह देवतवाल के मकान तक , न्यू आदर्श कॉलोनी: जगदीश अग्रवाल के मकान से दर्शन सिंह के मकान को शामिल करते हुये मानसिंह राजपूत के मकान से होते हुये ओमप्रकाश शर्मा के मकान से गीताराम मास्टर के मकान तक, किसान कॉलोनी: छोटेलाल पटवारी के मकान से रामजीलाल गुर्जर के मकान को शामिल करते हुये रमेश शर्मा पास्ट मास्टर के मकान से मुकेश के मकान को शामिल करते प्रभूदयाल

		के मकान तक, देवतवाल कॉलोनी : लल्लूराम देवतवाल के मकान से बडियाल रोड होते हुये रंगलाल चेची की गली व विवेकानन्द स्कूल के पीछे संग्राम पटवारी की गली व कैलाशी का मकान व जयप्रकाश के मकान को शामिल करते हुये मक्खन गुर्जर के मकान से होते हुये महेश जांगिड के मकान तक
28	28	आगरा फाटक से पीडबलूडी तिराहे से संजय चौक भांडेडा रोड पर उपाध्याय की दुकान को शामिल करते हुए अनाज मण्डी सम्पूर्ण परिसर मण्डी गेट राधेश्याम बजाज से सीताराम रावत से बालाजी मन्दिर नई सब्जी मण्डी, सैनी विधा मन्दिर मोहल्ला, नया मोहल्ला होलेवश्वर मन्दिर मोहल्ला, बडियाल रोड पर नारायण सहाय के मकान से आगरा फाटक क्षेत्र।
29	29	1 पंचायत समिति के पास: रविन्द्र शर्मा के मकान से अनिल माकन के मकान तक , 2 खण्डेलवाल कॉलोनी व सैनी एवीएम के पीछे: सामोल्या प्रजापत के मकान से पीताम्बर दयाल के मकान को शामिल करते हुये रूपकिशोर सोनी के मकान तक सम्पूर्ण भाग , 3 आगरा लाईन कॉलोनी , 4 आगरा लाईन के पास: रमेश सैनी के मकान से सोनू गोयल के मकान तक
30	30	1 पुरानी सब्जी मण्डी के पास: रामनारायण सारसर के मकान से कमल किशोर के मकान से होते हुये अमर सिंह के मकान तक, 2 बसवा रोड: हरि सिंह के मकान से सुरेश घडी वाला के मकान तक , 3 गुढा रोड: घनश्याम सोनी के मकान बृजकिशोर सोनी के मकान तक ,4 गुढा रोड , 5 कोर्ट के पीछे कॉलोनी: प्रताप चक्की वाले के मकान से वेदप्रकाश सैनी के मकान को शामिल करते हुये लेखराज के मकान से सुरेन्द्र माकन के मकान तक सम्पूर्ण , 6 माली कॉलोनी सम्पूर्ण
31	31	1 तिवाडी मौहल्ला , 2 संगम भवन , 3 महेन्द्र नगर
32	32	1 कौशल नगर: चिरंजी सैनी के मकान से कंवरपाल चौधरी के मकान तक, 2 नया बास: रामकिशोर रावत के मकान से घासी राम के मकान तक , 3 काना का बास: पूनाराम के मकान से लल्लूराम सैनी के मकान तक
33	33	मालीपुरा: लक्ष्मीनारायण सैनी के मकान से गोपाल के मकान से होते हुये हरिमोहन सैनी के मकान को शामिल करते हुये चौधरी कॉलोनी को शामिल करते हुये रामनारायण सैनी के मकान से होते हुये सम्पूर्ण हरिजन बस्ती, पंचायत समिति के पीछे: मिश्रा पत्रकार के मकान से सुरेन्द्र के मकान का शामिल करते हुये लक्ष्मीकान्त टांक के मकान तक प्रकाश पारीख के मकान से दिलीप सैन के

		मकान तक, पांचाल के मकान से नन्द किशोर के मकान तक
34	34	1 माली कॉलोनी: जगदीश प्रसाद के मकान से होते हुये संतोष अध्यापिका के मकान तक , 2 नई कॉलोनी: फतेहपुरिया मोबाईल वाले के मकान से रामोतार पान वाले के मकान तक , 3 मधुवन कॉलोनी: अशोक बिजली वाले के मकान से कन्हैया ब्रेकरी वाले के मकान तक , 4 नाथ्या टुण्डा का बास: लल्लूराम बैंक मैनेजर के मकान से कैलाश प्रसाद के मकान तक , 5 नौमुठ्या का बास: रामचन्द्र गुरुजी के मकान से जगदीश यूको बैंक वाले के मकान तक
35	35	1 बसवा रोड- राजाराम ठेकेदार की गली से शर्मा क्लिनिक तक 2 रामनगर कॉलोनी ,3 पटेल नगर कोलोनी , 4 गोपाल नगर
36	36	1 पेमा का बास , 2 रामल्या का बास , 3 घोडारोक ढाणी , 4 घोडारोक , 5 सिकन्दरया का बास: भगवान सहाय कम्पाउण्डर के मकान से शंकर सैनी के मकान तक, 6 मालीपुरा: रामेश्वर शर्मा के मकान से घनश्याम अवस्थी के मकेान तक, गिरधारी लाल के मकान से हरिनारायण (बसवा रोड) के मकान तक
37	37	बसवा रोड-कटटा हास्पिटल से गढ की सीमा व बैरवा बस्ती को शामिल करते हुए बचपन स्कुल तक, बाढ बिशनपुरा रोड होते हुए कॉलेज के पास से ढिलावरिया का बास सम्पूर्ण को शामिल करते हुए रेल लाइन के सहारे चन्द्र शेखर एटीऑ के मकान से बसवा रोड पर हरिनारायण के मकान तक दोनो तरफ।
38	38	बसवा रोड- कैलाश गुप्ता के मकान से बिहारीलाल गुप्ता के मकान तक, सतीश गीजगढ वाले के मकान से कमला मीणा के मकान तक शिक्षक कॉलोनी।
39	39	1 झील - बुढालाल सैनी के मकान से मांगीलाल पूनीलाल सैनी की सम्पूर्ण ढाणी को शामिल करते हुये रामधन हरसहाय की ढाणी में बाबूलाल सैनी के मकान तक, देवी सहाय सरपंच की ढाणी में छोटेलाल के मकान से मंदिर के पीछे प्रकाश सैनी के मकान तक, मूलचन्द चौधरी की ढाणी मे गिराज सैनी के मकान से लल्लूपन्ना की ढाणी को शामिल करते हुये सुरेश चन्द शर्मा पीटीआई के मकान से होते हुये सरस्वती शिक्षा निकेतन स्कूल तक, 2 झालानी बगीची के सामने: रामस्वरूप सेनी के मकान से सीतादेवी के मकान तक, 3 झील जैन्या की ढाणी: पुरुषोत्तम अग्रवाल के मकान से रेवडमल सैनी के मकान से होते हुये रामभरोषी जांगिड के मकान तक व बाबूलाल सैनी के मकान से कन्हैया शर्मा के

		मकान तक सम्पूर्ण जैन्या की ढाणी, 4 झील -करनावरिया की ढाणी : हरसहाय सैनी अध्यापक के मकान से हेमलता सैनी पार्षद के मकान से होते हुये गिरधारी लाल सैनी थानेदार के मकान से मंत्री कॉलोनी को शामिल करते हुये सम्पूर्ण करनावरियां की ढाणी
40	40	अणची का बास, दिल्ली फाटक से गुढा रोड के दोनो तरफ के मकान को शामिल करते हुये गजराज चौधरी के मकान से मोतीलाल माल एडवोकेट के मकान होते हुये बृजनन्दन पीलवाल के मकान से होते हुये अजय वर्मा के मकान तक, राधेकृष्णा मैरिज होम को शामिल करते हुये रतन लाल रलावता के मकान से होते हुये रामकृपाल मीना के मकान को शामिल करते हुये अभिनव विद्या मन्दिर से दिल्ली फाटक तक, गिर्राज वकील व हरिजन बस्ती को शामिल करते हुए मदन मीना की ढाणी/ईश्रया की ढाणी सम्पूर्ण

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका बांदीकुई

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।